

CIN No. L65910DL1990PLC040705

Regd. Office: 4, MMTC/STC Market, Geetanjali, New Delhi-110017

Corp. Office: 315, Square One Mall, Saket, District Centre, New Delhi-110017

Phone No: 011-42181244, Email ID: genesis599@gmail.com, Website: www.genesisfinance.net

05th March, 2022

To.

The Manager, Metropolitan Stock Exchange of India Limited

Vibgyor Towers, 4th Floor, Plot No. C 62, G-Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400098.

Dear Sir.

Subject: Disclosure under Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

Pursuant to the provisions of Regulation 30 and 47 of SEBI Listing Regulations, we are hereby submitting the copy of public notice published on March 05, 2022 in Financial Express – English and Jansatta – Hindi stating that the Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with explanatory Statement through email/speed post/registered post to all the members whose names appear as on the cutoff date i.e., Friday, 25^{th} February, 2022.

Kindly take the above on your record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For and on behalf of **Genesis Finance Company Limited**

Gopal Bisht

(Whole Time Director and CFO)

DIN: 00597160

Regd. Office Add: 4 MMTC/STC Market,

Geetanjali, New Delhi - 110017

FINANCIAL EXPRESS

MUTUAL

Finmin asks departments, ministries to surrender 'savings' by March 21

New Delhi, March 4

KEEPING A TIGHT leash on finances, the finance ministry has asked departments and ministries to surrender any savings from their respective budget allocations for the current financial year by March 21.

"It is therefore requested that the surrenders of savings under each unit of appropriation may be sent to this (finance) ministry so as to reach the Budget Division latest by March 21," according to an office memorandum issued by the department of economic affairs on March 2.

FROM THE **FRONT PAGE**

Listed firms should open up more with investors, says Nykaa founder



So if you look at the data, it tells you that today where India is in terms of its consumption journey in BPC is where China was exactly 15 years ago in

"So I mean, there's a total difference in terms of the purchasing power, the awareness, the education for a small town consumer in India versus that in LA in the US. I think that is what excites us so much that we've been able to build a business of our scale when we're so early on in our journey as a country. The opportunity is massive and the addressable market is growing leaps and bounds."

The Express e-Adda is a series of informal interactions organised by The Indian Express Group and features those at the centre of change.

Previous guests at the e-Adda, as these discussions moved online during the pandemic, include Infosys Non-**Executive Chairman Nandan** Nilekani, Union External Affairs Minister S Jaishankar, Union Minister for Road Transport and Highways and MSMEs Nitin Gadkari, Union Minister for Education Ramesh Pokhriyal, AIIMS Director Dr Randeep Guleria, former Chief Economic Advisor Arvind Subramanian and Kotak Mahindra Bank MD & CEO Uday Kotak.

> SUDHA APPARELS LIMITED CIN: L17299WB1981PLC033331 Registered Office: 2/5, Sarat Bose Road, Sukh Sagar Flat No 8A, Kolkata West Bengal- 700020 Email: secretarial@sudhaapparels.com Website: www.sudhaapparels.com Phone 033-46023115

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (the 'EGM') of the

members of the Company is scheduled to be held on Wednesday, March 30, 2022 at

11:30 A.M. (IST) at Plot No. 106, Institutional Sector- 44, Gurgaon- 122003, Haryana. In view of the current circumstances prevailing due to COVID-19 pandemic and in

compliance with the requirements of the MCA Circulars, physical copy of Notice will

not be sent to the shareholders for this EGM. The Notice will also be available on the

website of the Company www.sudhaapparels.com and on the website of the Stock

Exchange i.e Calcutta Stock Exchange (CSE), where the Company's shares are listed.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule

20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44

of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations'), the Company is providing

electronic voting ('Remote E-Voting') facility to the members to enable them to cast

Members are further informed that remote e-Voting shall commence at 9:00 A.M. (IST)

on Sunday, March 27, 2022 and end at 5:00 P.M. (IST) on Tuesday, March 29, 2022. The

remote e-Voting shall not be allowed after 5:00 P.M. (IST) on Tuesday, March 29, 2022,

The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid

period. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The Cut-off date for the purpose of remote e-Voting

has been fixed as Wednesday, March 23, 2022. Voting rights shall be reckoned on the

paid up value of the shares registered in the name of the members of the Company as

Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the

Company after dispatch of the Notice of the EGM and holding shares as of the Cut-off

date i.e. Wednesday, March 23, 2022, may obtain the User ID and Password by sending

a request at evoting@nsdl.co.in. However, if any person is already registered with

NSDL for remote e-Voting, he can use his existing User ID and Password for casting

The facility for voting through Ballot Paper shall be made available during the EGM

and the member attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting

shall be able to vote at the meeting. The members, who have already cast their vote

through remote e-voting may attend the meeting, but shall not be entitled to cast their

In case of any queries/grievance, you may refer the Frequently Asked Questions

(FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the

downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990 or

send a request at evoting@nsdl.co.in or rta@alankit.com or to Company at

secretarial@sudhaapparels.com. If you are already registered with NSDL for remote

e-voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User

Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the

following toll free no. 1800-222-990. The Individual Shareholders holding securities

in demat mode, may follow steps mentioned in the Notice of the EGM under "Access

Members, who are holding shares in physical form or who have not registered their

e-mail ID with the Company/ RTA can cast their vote through remote e-voting by

The results of voting on the resolutions set out in the Notice of the EGM shall be

declared within 2 working days of conclusion of the EGM. The results declared along

with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.sudhaapparels.com and on the website of NSDL immediately after the declaration

of result by the Chairman or a person authorised by him and the results shall also be

their votes electronically through National Securities Depository Limited (NSDL).



The savings by departments could provide some cushion to the government, which could postpone the mega IPO of the Life Insurance Corporation (LIC) to next financial year.

Adelay in the LIC issue to the next fiscal could strain the gov-

ernment's finances as it has factored in about ₹60,000 crore receipts from the IPO in the revised (RE) disinvestment revenues for FY22. Already the disinvestment target for the current fiscal has been pruned to ₹78,000 crore in RE from ₹1.75 lakh crore envisaged in the budget estimate. So far in FY22, the proceeds from divestment have been a paltry ₹12,424 crore.

While surrendering the savings, the excess or shortfall in recoveries, if any, in the respective Grants against the original estimates of recovery may also be furnished, the memorandum said.

CLARIFICATION FOR SALE NOTICE PUBLISHED ON 04.03.2022 **SHAMKEN SPINNERS LIMITED - IN LIQUIDATION**

Clarification in the area of the "Building" under Block-A mentioned in the Sale Notice of Shamken Spinners Limited- In Liquidation published on 04.03.2022 wherein the details of the asset has to be read as follows:

"Land [Freehold Land measuring-17.32 Acres] along with Building (Constructed Area-33,090 Sq. Mtr) and plant and machinery situated at 94 km Stone, Delhi-Mathura Road, Village Kotwan, District Mathura, Uttar Pradesh.)"

This clarification has been issued by the Liquidator, in order to correct the inadvertent error in the Sale Notice published on 04/03/2022 in Financial Express.

Date: 04-03-2022 Place: New Delhi

Sanjay Gupta

Liquidator in the matter of Shamken Spinners Limited IBBI (Regn. No- IBBI/IPA-001/IP-P00117/2017-18/10252) Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash-I, New Delhi-110048 Email: assetsale1@aaainsolvency.in; sanjaygupta@aaainsolvency.com Contact No.: +91 8800865284 (Mr. Raj Kumar/Puneet Sachdeva)

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy
(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

	Name of the corporate debtor	M/s. ETHNIC TOBACCO (INDIA) LIMITED
2.	Date of Incorporation of Corporate Debtor	23/12/2005
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies - Vijayawada
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U16001AP2005PLC048552
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of the Corporate Debtor	D. No. 6-23-6/A, JAYA TOWERS 5th LANE, 4th CROSS ROAD, ARUNDALPET GUNTUR AP 522002
6.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	23-12-2021
7.	Date of invitation of expression of interest	05.03.2022
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Can be obtained by sending email at cirp.ethnictobacco@gmail.com
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Available on Website of IBBI
10.	Last date for receipt of expression of interest	20.03.2022
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	30.03.2022
12.	Last date for submission of objections to provisional list	04.04.2022
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	14.04.2022
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	04.04.2022
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum("IM") and further information	Eligible Resolution Applicant (RA) may communicate with RP at address mentioned in serial No. 21 for obtaining Information Memorandum (IM), Evaluation Matrix.
16.	Last date for submission of resolution plans	04.05.2022
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	In Electronic form on the email id cirp.ethnictobacco@gmail.com and by speed post or by hand delivery
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	03.06.2022
19.	Name and registration number of the resolution professional	Kasi Srinivas IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00237/2019 -2020/12840
20.	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	1-2-37/4B, Flat No 4B, Jains Bhavani Residency, St No 3, Kakatiya Nagar, Habsiguda, Hyderabad-500007. E-Mail:Srinivaskashyap111080@gmail.com
21.	Address and email to be used for corres pondence with the resolution professional	Flat No 104, Kavuri Supreme Enclave, Kavuri Hills, Madhapur, Hyderabad-500033, Telangana. E-Mail: cirp.ethnictobacco@gmail.com
22.	Further Details are available at or with	Can be obtained by sending email at cirp.ethnictobacco@gmail.com
23.	Date of publication of Form G	05.03.2022
	te: 05-03-2022 ace: Hyderabad	KASI SRINIVAS,Resolution Professional For M/s. ETHNIC TOBACCO (INDIA) LIMITED

TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED W A Tata Power and Delhi Government Joint Venture TATAPOWER-DDL Regd. Office: NDPL House, Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi 110 009 Tel: 66112222, Fax: 27468042, Email: TPDDL@tatapower-ddl.com CIN No.: U40109DL2001PLC111526, Website: www.tatapower-ddl.com

NOTICE INVITING TENDERS

Mar 05, 2022

TATA Power-DDL invites tenders as per following details:

Tender Enquiry No. Work Description	Estimated Cost/EMD (Rs.)	Availability of Bid Document	Last Date & Time of Bid Submission Date and time of Opening of bids	
TPDDL/ENGG/ENQ/200001388/21-22 Rate Contract for supply of HT Co-	35.68 Cr /	05.03.2022	25.03.2022;1600 Hrs	
Extruded and Power Cables	39.47 Lacs		25.03.2022;1630 Hrs	
TPDDL/ENGG/ENQ/200001390/21-22	5.45 Cr /	05.03.2022	25.03.2022;1630 Hrs	
Rate Contract for supply of HT AB Cables	7.73 Lacs		25.03.2022;1700 Hrs	
TPDDL/ENGG/ENQ/ 200001387/21-22 RC for Professional Services towards Intelligence / Enforcement Assignment for a period of 2 Year.	70.80 Lacs 1.8 Lacs	07.03.2022	28.03.2022;1600 Hrs 28.03.2022;1630 Hrs	
TPDDL/ENGG/ENQ/200001389/21-22 Rate Contract – Supply of 1000 kVA Distribution Transformers	8.67 Cr./ 15.02 Lacs	09.03.2022	29.03.2022;1600 Hrs 29.03.2022;1630 Hrs	
TPDDL/ENGG/ENQ/200001391/21-22	13.86 Cr./	05.03.2022	25.03.2022;1600 Hrs	
Rate Contract – Supply of 11 kV RMU	22.80 Lacs		25.03.2022;1700 Hrs	

Complete tender and corrigendum document is available on our website www.tatapower-ddl.com → Vendors Zone → Tender / Corrigendum Documents Contracts - 011-66112222

GENESIS FINANCE COMPANY LIMITED

Corporate Identity Number: L65910DL1990PLC040705 Regd. Office: 4 MMTC/STC Market, Geetanjali, New Delhi-110017 Corp. Office: 315, Third Floor, Square One Mall, Saket, New Delhi-110017

Tel. No.: 011-42181244 | Website: www.genesisfinance.net; E-mail: genesis599@gmail.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given pursuant to Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules") read with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/ 2020 dated April 13, 2020, No. 22/ 2020 dated June 15, 2020, No. 33/ 2020 dated September 28, 2020, No. 39/ 2020 dated December 31, 2020, No. 10/2021 dated June 23, 2021 and No. 20/2021 dated December 08, 2021 (collectively, referred to as the "MCA Circulars") the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 ("SEBI Delisting Regulations") and the Securities and Exchange Board of India Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and other applicable laws, including any statutory modification(s) amendment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as may be enacted hereinafter, to the Members of Genesis Finance Company Limited ("Company"), to consider and if thought fit to pass the resolution set out herein

	ions and other applicable laws.
S.No.	Description of Special Resolution

Voluntary Delisting of the Equity Shares of the Company from Metropolitan Stock Exchange of India Limited ("MSEI")

The Company has on March 04, 2022 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice. Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the electronic copies of the Postal Ballot Notice along with the Explanatory Statement to all Members of the Company, who have registered their e-mail address with the Company or with their Depository Participant (in respect of the shares held in electronic form) and physical copies to the Members who have not registered their email ids as on Friday, February 25, 2022, i.e. the cut-off date. The voting rights of Members have been reckoned as on Friday, February 25, 2022 which was the cut-off date. A person who is not a Member on the cut-off date shall treat this notice for information purposes only.

Voting through Postal Ballot including voting by electronic means shall commence from 09:00 A.M. (IST) on Saturday, March 05, 2022 to 05:00 P.M. (IST) on Sunday, April 03, 2022. The Members who have their email ids registered with the Company, shall avail remote e-voting facility. Further, the facility of physical voting option through Postal Ballot papers will be provided to the Members who have not registered their email ids considering the relaxations given in this regard. Members are requested to note that e-voting will not be allowed beyond 05:00 P.M.

(IST) on Sunday, April 03, 2022. Further, for members opting for physical voting, duly completed and signed postal ballot form should reach the Scrutinizer on or before the close of working hours i.e. 05:00 P.M. (IST) on Sunday, April 03, 2022.

The Company has engaged the services of Skyline Financial Services Private Limited "Registrar & Share Transfer Agent") for providing e-voting facility to all its members. The instructions on the process of postal ballot through remote e-voting, including the manner in which members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses, are provided in the Postal Ballot Notice. The Postal Ballot Notice will also be available on the Company's website at www.genesisfinance.net, website of MSEI at www.msei.in and on the website of Skyline Financial Services Private Limited at www.skylinerta.com.

The Board of Directors have appointed Mr. Abhimanyu Upadhyaya (M. No.: F5921), proprietor of M/s A. Upadhyaya & Associates, Practicing Company Secretaries (CP No.: 4729), as the Scrutinizer to conduct the Postal Ballot in a fair and transparent

The result of the Postal Ballot (along with Scrutinizer's report) will be declared by the Chairman of the Company on Monday, April 04, 2022 and will also be displayed on the website of the Company (www.genesisfinance.net), besides being communicated to MSEI, National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (together the "Depositories") and Registrar & Share Transfer Agent.

In case of any queries or grievances with regard to voting by postal ballot including e-voting, members can visit Help & FAQ's section available at Skyline Financial Services Private Limited at www.skylinerta.com or contact on: - Tel: 022-23058738 and 022-23058542/43 or Mr. Gopal Bisht, Whole Time Director and Chief Financial Officer of the Company at genesis599@gmail.com.

> By Order of the Board **Genesis Finance Company Limited**

Richa Bhardwaj (Company Secretary & Compliance Officer) Membership No.: A32549



TEGA INDUSTRIES LIMITED

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATIONS

Registered Office: 147, Block-G, New Alipore, Kolkata-700 053. Telephone No.: +91-33-4093 9000; Fax No.: +91-33-4093 9075

Email: investor.relations@tegaindustries.com; Website: www.tegaindustries.com

NOTICE is hereby given to the members pursuant to Section 108, Section 110 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), read with Regulation 44 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI LODR Regulations"), as amended and Secretarial Standard-2 ("SS-2") on General Meetings including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and pursuant to other applicable laws and regulations, that the Special Resolutions as set out in the Notice are proposed for consideration by the members of the Company for passing by means of Postal Ballot by way of voting through electronics means ("remote e-voting").

The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("Linkintime") as the agency to provide e-voting facility.

The Postal Ballot Notice along with the instructions regarding remote e-voting has been sent on Friday, March 4, 2022 only through e-mail to those members, whose e-mail addresses are registered with the Company or Depositories/Depository Participants and whose names appear in the Register of Members or list of beneficial owners as on Friday, February 25, 2022 ("Cut-off date") in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding general meetings/conducting postal ballot process through remote e-voting.

The Postal Ballot Notice shall also be uploaded on the website of the Company i.e. www.tegaindustries.com and on the remote e-voting website of Linkintime i.e. https://instavote.linkintime.co.in and also on the websites of BSE and NSE on which the shares of the

registration of their e-mail addresses with the Company or Depositories/Depository Participants) shall be entitled to vote in accordance with the process specified in Remote e-Voting Instructions in the Postal Ballot Notice. Members holding shares in physical mode and who have not updated their e-mail addresses with the Company are requested to send an email to Linkintime at mt.helpdesk@linkintime.co.in or enotices@linkintime.co.in and get their respective email addresses updated. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their email addresses with the relevant

All the members of the Company as on the Cut-off date (including those members who may not have received this Notice due to non-

Depositories/Depository Participants. Remote e-voting shall commence on Saturday, March 5, 2022, at 9.00 A.M. (IST) and end on Sunday, April 3, 2022 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by Linkintime for voting thereafter.

Mr. Atul Kumar Labh, Practicing Company Secretary (CP No. 3238 and Membership No. FCS 4848) as the "Scrutinizer" for conducting the Postal Ballot process through the e-voting process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer will submit the results to the Chairman of the Company or to any other person authorized by him after completion

of scrutiny of the remote e-voting and the results of the remote e-voting shall be declared not later than 5.00 P.M. (IST) on Tuesday,

The resolutions, if approved by the requisite majority of members by means of Postal Ballot, shall be deemed to have been passed on the last day of e-voting i.e. Sunday, April 3, 2022.

In case of any query/concern/grievance, members may refer the (i) Instavote e-voting manual or (ii) Frequently Asked Questions ("FAQs"), available under Help section at https://instavote.linkintime.co.in or contact Mr. Raiiv Ranjan of Linkintime, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra, India or Call at:- Telephone No.: 022-49186000 or write an email to the Company Secretary at investor relations@tegaindustries.com.

By the order of Board of Directors For Tega Industries Limited

Manoj Kumar Agarwal Company Secretary Membership No: ACS 15975



BHAROSA APNO KA

HDFC Asset Management Company Limited A Joint Venture with abrdn Investment Management Limited CIN: L65991MH1999PLC123027

Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676 Fax: 022 22821144 • e-mail: hello@hdfcfund.com • Visit us at: www.hdfcfund.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, Trustee to HDFC Mutual Fund ("the Fund"), has approved the following Distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal Option ("IDCW") in the following Scheme(s) / Plan(s) of the Fund and fixed Thursday, March 10, 2022 (or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day) as the Record Date for the same:

Name of the Scheme(s) / Plan(s) / Option(s)	Net Asset Value ("NAV") as on March 03, 2022 (₹ per unit)	Amount of Distribution* (₹ per unit)	Face Value (₹ per unit)
HDFC TaxSaver - Regular Plan - IDCW Option (Payout)	55.544	5.75	
HDFC TaxSaver - Direct Plan - IDCW Option (Payout)	67.468	5./5	
HDFC Housing Opportunities Fund - Regular Plan - IDCW Option (Payout and Reinvestment)	11.870	1.00	40.00
HDFC Housing Opportunities Fund - Direct Plan - IDCW Option (Payout and Reinvestment)	12.407	1.00	10.00
HDFC Dividend Yield Fund - Direct Plan - IDCW Option (Payout and Reinvestment)	13.668	- 1.00	
HDFC Dividend Yield Fund - Direct Plan - IDCW Option (Payout and Reinvestment)	13.953	1.00	

Amount of distribution per unit will be as mentioned above or available distributable surplus (rounded down to a multiple of five at the second decimal) as on the record date, whichever is lower.

Pursuant to the Distribution, the NAV of the IDCW Option(s) of the above Scheme(s) would fall to the extent of such distribution and statutory levy, if any.

Amount will be paid, net of applicable tax deducted at source (TDS), to those Unit holders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Fund / Statements of Beneficial Ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the IDCW Option(s) of the aforesaid Scheme(s) on the Record Date (including investors whose valid purchase / switch-in requests are received by the Fund and the funds are available for utilization before cut-off timings in respect of the aforesaid Scheme(s), on the Record date).

With regard to Unit holders who have opted for Reinvestment facility under the IDCW Option(s) of HDFC Housing Opportunities Fund and HDFC Dividend Yield Fund, the amount due (net of applicable FDS) will be reinvested, by allotting Units at the ex-Distribution NAV per Unit (adjusted for applicable

Unit holders are advised to opt for payout through electronic mode(s) at the earliest due to the inherent benefits of such mode(s) such as convenience of the credit of the distribution proceeds into their bank account directly as also avoiding loss of payment instruments in transit or fraudulent encashment. Please arrange to send us a copy of a cancelled cheque of your bank account to have the electronic payout mode enabled.

Intimation of any change of address / bank details should be immediately forwarded to the Investor Service Centres of the Fund (for units held in non-demat form) / Depository Participant (for units held in demat form).

In view of individual nature of tax consequences, each investor should seek appropriate advice. For HDFC Asset Management Company Limited

(Investment Manager to HDFC Mutual Fund)

Date: March 04, 2022

Place: Mumbai

of the portfolio

to 3 years)

is between 1 year

IDBI GILT FUND

(An open-ended

securities across

debt scheme

investing in

government

maturity)

unchanged.

Place: Mumbai

Date : March 04, 2022

Authorized Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



IDBI Asset Management Limited CIN: U65100MH2010PLC199319

Registered Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400005 Corporate Office: 4" Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400005 Fel: (022) 66442800 Fax: (022) 66442801 Website: www.idbimutual.co.in E-mail: contactus@idbimutual.co.in

NOTICE CUM ADDENDUM NO. 33/2021-22 CHANGE IN RISK-O-METER

Investors are requested to note that pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2020/197

dated October 05, 2020, the Risk-o-meter of the following Schemes of IDBI Mutual Fund stand revised as under, based on evaluation of risk level of Schemes Portfolios as on February 28, 2022:

Name of	Product Labelling#	Existing Risk-o-meter	Revised Risk-o-meter
the scheme	This prod	uct is suitable for investors who	are seeking*:
IDBI ULTRA SHORT TERM FUND (An open-ended ultra short term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 months and 6 months)	Regular income for short term Investments in Debt / Money market instruments with relatively lower interest rate risk, such that the Macaulay duration of the portfolio is maintained between 3 months to 6 months	Noderate Moderately High High High High High High High High	Noderate Moderately High High High High High High High High
IDBI DYNAMIC BOND FUND (An open-ended dynamic debt scheme investing across duration)	Generate Income along with attendant liquidity through active management of portfolio with at least medium term horizon Investments in Debt (including Government Securities)/ Money market instruments	Noderate Moderately High High High High High High High High	Low to Moderate Moderately High High High Wery High Very High Investors understand that their principal will be at Moderate Risk
IDBI SHORT TERM BOND FUND (An open-ended short term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio	Regular income for short term Investments in Debt / Money market instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is maintained between 1 year to 3 years	Low to High High High High High High High High	Noderate Moderately High High High Noderate Noderately High High High Noderately High High High High High High High High

their principal will be at Moderate Risk

Investors understand that their principal will be at Moderate Risk



their principal will be at

Low to Moderate Risk

Low to Moderate Risk

Investors should consult their financial advisors if in doubt about whether the product is suitable for them.

There is no change in product labelling of the schemes. Only risk-o-meter is changed. This Addendum shall form an integral part of Scheme Information Document / Key Information

Long term regular income

appreciation with at least

medium term horizon

Investments in dated

Government securities/

T-Bills/ Money market

New Delhi

Central & State

Instrument

along with capital

Memorandum of IDBI Ultra Short Term Fund, IDBI Dynamic Bond Fund, IDBI Short Term Bond Fund and IDBI Gilt Fund, the schemes of IDBI Mutual Fund, as amended from time to time. All other features and terms and conditions as stated in the SID/KIM of the Schemes shall remain

For IDBI Asset Management Limited

(Investment Manager to IDBI Mutual Fund)

Company Secretary and Compliance Officer Statutory Details: IDBI Mutual Fund has been set up as a trust sponsored by IDBI Bank Limited with

IDBI MF Trustee Company Limited as the Trustee ("Trustee" under the Indian Trusts Act, 1882) and with IDBI Asset Management Limited as the Investment Manager. Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

financialexp.epap.in

communicated to the Stock Exchange.

vote again at the EGM.

to NSDL e-Voting system".

registering their e-mail ID.

Date: March 4, 2022 Place: Gurgaon

Company Secretary

For SUDHA APPARELS LIMITED

Sandhya Tiwari

Date: 04/03/2022 Place : Kolkata

IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00237/2019 -2020/12840

Place: New Delhi Dated: March 4, 2022

(ऋण यसूली न्यायाधिकरण (विधि) नियमों, 1993 के नियम 5 के उप नियम (2ए) के साव पठित अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन समन) बैंक ऑफ इंडिया

(1) ग्रीमा पैकेजिम सॉल्यूझंस इसकी पार्टनर श्रीमती शारदा गर्ग फली श्री प्रवीण गर्ग [श्री तेशन लाल बंसल की बेटी] निवासी मकान नंबर 2704, गली नंबर 4, फेज हा, लक्ष्मण विहार, गृहणांव, हरियाणा 122001 के माध्यम

(2) श्रीमती शाखा गर्ग पार्टनर, द्वीस्स पैकेजिंग सॉल्य्झंस, पत्नी श्री प्रवीण गर्ग [श्री रोशन लाल बंसल की बेटी] निवासी मकान नंबर 2704, गली नंबर 4, फेज II, लक्ष्मण विहार, गृहणांव, हरियाणा 122001 (3) श्री जितेन कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मुल्लाहेडा, मकान संख्या 407, गुड्यांव, हरियाणा 122015

चृकि दिनांक 18.02.2022 को ओए/1141/2019 माननीय पीठासीन अधिकारी/पीजस्ट्रार के समक्ष सुनीवद्ध किया था।

चुंकि, यह माननीय न्यायाधीकरण राशि 10,36,555/- ऋषष्ट के ऋषों की यसुली के लिए जापके विरुद्ध दाखिल (उद्देए) में अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत कथित आयेदन पर समन/नोटिस जारी करता है। (दस्तायेजों की

अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के तद्नुसार, प्रतिवादी को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है:-(i) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कारण बताना होगा कि विसके लिए राहत की प्रार्थना की गई है वह क्यों

तथा परिसंपत्तियों का विचरण प्रदर्शित करना। (iii) आपको मृत आवेदन की क्रम संक्ष्या उए के अंतर्गत प्रदर्शित की गई प्रतिभृतित परिसंपत्तियों वा ऐसी किसी अन्य

परिसंपत्तियों तथा संपत्तियों के साथ लेन-देन और निपटान करने से प्रतियंधित किया जाता है, साथ ज़री हुई संपत्तियों के लिए आवेदन की सुनवाई एवं निपटान लेकित है।

को छोड़कर विक्री, लीन या अन्यथा तरीके द्वारा संपत्ति का हरतांतरण नहीं कर सकीये। (v) आप व्यापार के सामान्य कोर्स में प्रतिभृति परिसंपत्तियां या अन्य परिसंपत्तियां तथा संपत्तियों की विक्री द्वारा विक्री

आपको आवेदक ग्राम प्रस्तुत को गई उस प्रति के साथ लिखित बधान को दाखिल करने तथा दिनांक 29.04.2022 को पूर्वाहर 50.30 **बजे** इस **मीजरहार** के समक्ष हपरिचत होने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल होने पर आवेदन की सुनवाई

मेरे हस्ताक्षर व इस न्यायाधिकरण की मृहर के अधीन 25.02.2022 को जारी किया गया।

Н	अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमा	वली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन
	प्रासी	गेक विवरण
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	ग्रेटर अराफात टैनर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	08 सितंबर 1989
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी)—कानपुर
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U19116UP1989PTC011154
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	12—सी, न्यू जाजमऊ रोड, कानपुर उत्तर प्रदेश यूपी—208010, भारत
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	22 दिसंबर 2021 (आदेश की प्रमाणित प्रति (CP(IB) No 94/ALD/ 2019 आरपी केमिकल्स बनाम ग्रेटर अराफात टैनर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में) दिनांक 22 दिसंबर 2021 की माननीय एनसीएलटी इलाहाबाद से दिनांक 24 दिसंबर 2021 को ईमेल द्वारा प्राप्त हुई
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	05 मार्च 2022
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान	cirp.greaterarafat@gmail.com

		2021 की माननीय एनसीएलटी इलाहाबाद से दिनाक 24 दिसंबर 2021 को ईमेल द्वारा प्राप्त हुई
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	05 मार्च 2022
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्मताः	cirp.greaterarafat@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
9.	धारा 29क के अधीन लागू अग्राह्मता के मानदंडः	वेबसाइट आईबीबीआई (ibbi.gov.in) पर उपलब्ध है या cirp.greaterarafat@gmail.com पर ईमेल करके प्राप्त किया जा सकता है
10.	अभिक्तिचे की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	21 मार्च 2022
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	31 मार्थ 2022
12.	अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	05 अप्रैल 2022
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	10 अप्रैल 2022

संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मल्यांकन मैटिक्स तथा समाधान योजना हेत् अनुरोध जारी करने की तिथि समाधान योजना, मृत्यांकन मैटिक्स, सचना ।, यह योग्य और शॉर्टलिस्ट किए गए समाघान आवेदकॉ ज्ञापन तथा अतिरिक्त सचना हेत् अनुरोध प्राप्त (पीआरए) को सुचित किया जाएगा। स्वामी दीन गुप्ता, अंतरिम समाधान पेशेवर की cirp.greaterarafat@gmail.com पर संपर्क करें समाधान योजना प्रस्तृत करने हेत् अंतिम तिथि ह) स्पीड पोस्ट / पंजीकृत पोस्ट के माध्यम से या स्वामी समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने दीन गुप्ता, 2 / 64 विशेष खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010 को व्यक्तिगत रूप से डिलीवरी द्वारा

g) योजना को मेल करने की सुचना और समाधान योजना की सॉफ्ट कॉपी cirp.greaterarafat@gmail.com पर मेल द्वारा सुचित करें 05 जन 2022 18. निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेत् समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि रवामी दीन गुप्ता . समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्टेशन पंजी.सं.:IBBI/IPA-003/IP-N000132/2017-18/11458

 समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई—मेल. जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है ईमेल : sdguptacmaip@gmail.com पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के स्वामी दीन गुप्ता साध पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है 2 / 64, विशेष खंड गोमती नगर, लखनऊ-226010 ईमेल : cirp.greaterarafat@gmail.com cirp.greaterarafat@gmail.com अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है

स्वामी दीन गुप्ता तिथि: 05 मार्च 2022 अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, ग्रेटर अराफात टैनर्स प्राइवेट लिमिटे स्थान: लखनऊ पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-003/IP-N000132/2017-18/11458

जेनेसिस फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

नई दिल्ली-110017 द्ररभाष. नंबर: 011-42181244 | वेबसाइट: www.genesisfinance.net;

ई-मेल: genesis599@gmail.com

अप्रैल 2020, सं. 22 / 2020 दिनांकित 15 जन 2020, सं. 33 / 2020 दिनांकित 28 सितंबर 2020, सं. 39 / 2020 दिनांकित 31 दिसंबर 2020, सं. 10 / 2021 दिनांकित 23 जन 2021 और सं. 20 / 2021 दिनांकित 08 दिसंबर 2021 (सामूहिक रूप में "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 ("नियमावली") के नियमद्वय 20 एवं 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धाराद्वय 108 व 110 एवं अन्य लागूयोग्य प्रावधानों, यदि कोई लाग हों. भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (समता अंशों का विसचीकरण) विनियमावली 2021 (''सेबी विसूचीकरण विनियमावली'') तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 (''सेबी स्चीकरण विनियमावली'') और अन्य लाग्योग्य विधि-व्यवस्थाओं, कुछ समय के लिए लागु और यहां इसमें इसके पश्चात अधिनियमितानुसार उसके किसी संवैधानिक परिवर्तन(नों), संशोधन(नों) अथवा पनर-अधिनियमन(नों) के अनुपालनानुसार जेनेसिस फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे सेबी विसूचीकरण विनियमावली के विनियम 11 और अन्य लागूयोग्य विधि—व्यवस्थाओं के अनुसार एक विशेष संकल्प के रूप में यहां इसमें निम्नानसार निर्धारित संकल्प पर विचार करें और यदि संकल्प उचित प्रतीत

विशेष संकल्प का विवरण

कंपनी ने 04 मार्च 2022 को डाकीय मतपत्र सूचना का प्रेषण कार्य पूर्ण कर लिया है। एमसीए परिपत्रों के अनुपालनानुसार कंपनी ने कंपनी के उन सभी सदस्यों को व्याख्यात्मक विवरण के साथ डाकीय मतपत्र सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां प्रेषित कर दी हैं, जिन्होंने कंपनी के साथ अथवा उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी (इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में धारित अंशों के संदर्भ में) के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत कर दिए हैं तथा वास्तविक प्रतियां उन सदस्यों को प्रेषित कर दी हैं जिन्होंने शुक्रवार 25 फरवरी 2022 अर्थात् कट—ऑफ तिथि के अनुसार अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की हैं। सदस्यों के मतदानाधिकारों की संगणना शुक्रवार 25 फरवरी 2022 के अनुसार की गई है, जो कि कट-ऑफ तिथि थी। एक व्यक्ति जो कि कट-ऑफ तिथि को एक सदस्य नहीं बना है उसे इस सूचना को केवल जानकारी के उददेश्य हेत् समझना-मानना चाहिए।

को प्रातः 09.00 बजे (भामास) से आरंभ हो जाएगा और रविवार 03 अप्रैल 2022 को सायं 05.00 बजे (भामास) तक चलेगा। जिन सदस्यों की ईमेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत हैं उन्हें दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, डाकीय मत पत्रों के माध्यम से वास्तविक मतदान विकल्प की सुविधा, इस संबंध में दी गईं छूटों पर विचार करते हुए, उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस जानकारी से अवगत हो लें कि ई-मतदान रविवार 03 अप्रैल 2022 को सायं 5.00 बजे (भामास) के पश्चात् अनुमत्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, वास्तविक मतदान का विकल्प चुननेवाले सदस्यों को सूचित किया जाता है कि उनके विधिवत ढंग से भरे गए पूर्ण और

कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई-मतदान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ("रजिस्ट्रार एवं अंश अंतरण अभिकर्ता") की सेवाएं जुटाई हैं। दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से डाकीय मतपत्र की प्रक्रिया पर अनुदेश और साथ में भौतिक प्रारूप में अंशों का धारण करनेवाले अथवा अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं करनेवाले सदस्यों के लिए मतदान की

डाकीय मतपत्र सूचना कंपनी की वेबसाइट www.genesisfinance.net पर, एमएसईआई की वेबसाइट www.msei.in पर तथा स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.skylinerta.com पर भी उपलब्ध होगी। निदेशक मंडल ने श्री अभिमन्यू उपाध्याय (सदस्यता सं.: एफ5921), मै. ए. उपाध्याय एंड एसोसिएट्स के स्वामी, अभ्यासरत् कंपनी सचिव (सीपी नं.: 4729) को एक उचित एवं पारदर्शी प्रविधि के तहत

डाकीय मतपत्र मतदान संचालन हेतु जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

डाकीय मतपत्र (जांचकर्ता के प्रतिवेदन के साथ) का परिणाम कंपनी के अध्यक्ष द्वारा सोमवार 04 अप्रैल 2022 को घोषित किया जाएगा और परिणाम जो होगा उसे एमएसईआई, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") (एक साथ "डिपॉजिटरीज") और रजिस्ट्रार एवं अंश अंतरण अभिकर्ता को सम्प्रेषित करने के अतिरिक्त, कंपनी की वेबसाइट (www.genesisfinance.net) पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। ई-मतदान सहित डाकीय मतपत्र द्वारा मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न अथवा शिकायत की स्थिति में सदस्यगण जो हैं वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.skylinerta.com पर उपलब्ध सहायता एवं एफएक्यू सेक्शन देख सकते हैं अथवा दूरभाष सं. 022-23058738 एवं 022-23058542/43 अथवा श्री गोपाल बिष्ट, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी से genesis599@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

प्रपत्र – 'जी'

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेत् आमंत्रण [दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध

	•	मावली, 2016 के विनियम 36क (1) के अधीन]
_		ासंगिक विवरण
1	कार्पोरेट देनदार का नाम	क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
2	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	02-04-1990
3	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार	आरओसी — कानपुर
	निगमित / पंजीकृत है	
4	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/	U51109UP1990PLC011787
ا ۽	सीमित दायित्व पहचान संख्या कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा	आर /ओ : 133 / 1, जूही गौशाला, कानपुर,
5	प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	उत्तर प्रदेश–208014
	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता	
6	आरंभन की तिथि	20-12-2021
_	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	05 00 0000
Ί		05-03-2022
8		cirp.qspl@gmail.com पर ई-मेल द्वारा
4	समाधान आवेदकों की ग्राह्यता :	साझा की जाएगी
9	धारा 29क के अधीन अग्राह्मता के मानदंड	समाधान आवेदक दिवाला और ऋणशोध अक्षमता संहिता,
		2016 की धारा 29 क के निबन्धनों में समाधान योजना प्रस्तुत
		करने हेतु अग्राह्य नहीं होना चाहिए। अतिरिक्त विवरण के लिए, कृपया हमको cirp.qspl@gmail.com पर ई—मेल करें
_		
10	अमिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	21-03-2022
11	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची	30-03-2022
	जारी करने की तिथि	
12	अनंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत	04-04-2022
-	करने हेतु अंतिम तिथि	,
13	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची	14-04-2022
	जारी करने की तिथि	
14	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	04-04-2022
15	समाधान योजना हेतु अनुरोध, मूल्यांकन मैट्रिक्स,	अतिरिक्त विवरण के लिए, कृपया हमको
	सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि	cirp.qspl@gmail.com पर ई-मेल करें
16	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	04-05-2022
- 1		
17	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने	सीलबंद लिफाफे में डाक द्वारा/दस्ती एक पेनड्राइव में
- 1	की विधि	उसकी डिजिटल प्रति सहित समाधान प्रोफेशनल को तथा
- 1		पासवर्ड संरक्षित सॉफ्ट कॉपी ई—मेल द्वारा cirp.qspl@gmail.com
- 1		को प्रोफेशनल को cirp.qspl@gmail.com को ई—मेल द्वारा
18	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान	03-06-2022
	योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	
19	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन	वरूण गोयल
	नंबर	रजिस्ट्रेशन नंबर –IBBI/IPA-001/IP-P02165/2020-21/13339
20	, ,	वरूण गोयल
	जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	1750, इटेर्निया टावर, महागुन् मॉडर्नी,
		सेक्टर–78, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301
	17 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ई–मेल आईडी – varun@casnva.com
21	पता और ई–मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	वरूण गोयल 908, 9वां तल, डी मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस,
		पीतमपुरा, दिल्ली–110034 ई–मेल आईडी – cirp.qspl@gmail.com
22	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास	अतिरिक्त विवरण के लिए, कृपया हमको
	उपलब्ध है	cirp.qspl@gmail.com पर ई-मेल करें
23	प्रपत्र "जी" के प्रकाशन की तिथि	05-03-2022
_		

UCO BANK

सोहना (2531) शाखा, वार्ड नं.5 बाई पास दिल्ली अलवर मैंन रोड, सोहना, गुडगाँव कब्जा सूचना (अधल सम्पत्ति के लिए)

तिथि : 05-03-2022

स्थान : नई दिल्ली

समाधान प्रोफेशनल, क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

ई-मेल आईडी - cirp.qspl@gmail.com

आईपी रजि. नंबर : IBBI/IPA-001/IP-P02165/2020-21/1333

परिशिष्ट-IV (नियम-8(1)) देखें जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के सं. 54) के अंतर्गत यूको बैंक, सोहन (2531) शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 08.12.2021 जारी कर 1) मै. श्री श्याम फर्नीचर, प्रॉप. श्री दीप चन्द (ऋणधारक), पताः 1. गहलोत विहार इन्द्री रोड, सोहना-122103, पताः 2: वार्ड नं. 4, हरिनगर, सोहना को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि सीसी लिमिट में 8.12.2021 को रु. 08.04.883.10/- (रुपये आठ लाख चार हजार आठ सौ तिड़ासी एवं पैसे दस मात्र) (08.01.2022 तक ब्याज सहित) तथा 8.12.2027 को रु. 28,870/- (रुपये अटठाईस हजार आठ सौ सत्तर मात्र) (30.3.2021 तक

ब्याज सहित) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे. अतः एतदद्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 28 फरवरी, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रवर्त्तन नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियं का किसी भी तरह का व्यवसाय सीसी लिमिट में 8.12.2021 को रु 08,04,883.10/- (रुपये आठ लाख चार हजार आठ सौ तिड़ासी एवं पैसे दस मात्र) (08.01.2022 तक ब्याज सहित) तथा 8.12.2021 को रु. 28,870/-(रुपये अटठाईस हजार आठ सौ सत्तर मात्र) (30.3.2021 तक ब्याज सहित) तथा उस पर आगे के अनुषांगिक खर्चे, लागतों, चार्जेज आदि के लिये यूको बैंक, सोहना (2531) शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण मै. श्री श्याम फर्नीचर, सोहना के परिसर में रखी गई अथवा रखी जाने वाली मै. श्री श्याम फर्नीचर का हाइपोथेकेट स्टॉक जिसमें फर्नीचर शामिल है।

श्री दीप चन्द की आवासीय सम्पत्ति, युनिक आईडी 18/4/34 एवं 19/4/34, वार्डी नं. 4, हरि नगर, सोहना-122103 जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है: उत्तरः गंगा भागवत का मकान, दक्षिणः 5' चौड़ी गली, पूर्व: श्री नाथी का मकान. पश्चिमः रोड

तिथिः 28.02.2022 स्थानः सोहना, गुडुगाँव प्राधिकत अधिकारी युको बैंक

UCO BANK

सोहना (2531) शाखा, वार्ड नं.5 बाई पास दिल्ली अलवर मैन रोड, सोहना, गृहगाँव कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) परिशिष्ट-IV |नियम-8(1)| देखें

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के सं. 54) के अंतर्गत यूको बैंक, सोहाना (2531) शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 08.12.2021 जारी कर 1) मै. विजय सैल्स एजेन्सीज, प्रॉप. श्री विजय कमार (ऋणधारक), 2) श्रीमती शकन्तला देवी (गारंटर) को उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि सीसी लिमिट में 8.12.2021 को रु. 16,07,311.06/- (रुपये सोलह लाख सात हजार तीन सौ ग्यारह एवं पैसे छः मात्र)(28.02.2022 तक ब्याज सहित) तथा एफटीएल खाता में 8.12.2021 को रु. 66,039/- (रु. छियासठ हजार उन्तालिस मात्र) (30.3.2021 तक ब्याज सहित) वापस

लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक/गारंटर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 28 फरवरी 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रवर्तन नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय सीसी लिमिट में 8.12.2021 को रु. 16,07,311.06/- (रुपये सोलह लाख सात हजार तीन सौ ग्यारह एवं पैसे छः मात्र)(28.02.2022 तक ब्याज सहित) तथा एफटीएल खाता में 8.12.2021 को रु. 66,039/- (रु. छियासठ हजार उन्तालिस मात्र) (30.3.2021 तक ब्याज सहित) तथा उस पर आगे के अनुवांगिक खर्चे, लागतों, चार्जेज आदि के लिए यको बैंक, सोहना (2531) शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

चल/अचल सम्पत्ति का विवरण

मै. विजय सैल्स एजेन्सीज सोहाना के परिसरों में रखी गई अथवा रखी जाने वाली मै. विजय सैल्स एजेन्सीज का हाइपोथेकेट स्टॉक जिसमें गिअर पार्टस, एयर फिल्टर, फैन बेल्ट्स, ल्युब्रिकेन्ट्स एवं अन्य मोटर पार्ट्स शामिल हैं।

श्री विजय कुमार एवं श्रीमती शकुन्तला के स्वामित्व में एच. नं. 168/5, मुस्त. नं. 219, किला नं. 4, एम.सी. रजिस्टर नं. 885/15, शिव कॉलोनी, सोहना में शामिल आवासीय सम्पत्ति जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है: उत्तर : गली, पूर्व : अन्य सम्पत्ति

पश्चिम : प्रवेश, दक्षिण : प्लॉट नं. 167/5

PUBLIC NOTICE

Fraudsters calling/sending sms/WhatsApp messages to the customers impersonating to be True Balance's employees or authorized representatives of True Balance mobile application (Operated by Balancehero India Private Limited)



This is to bring to the notice of the General Public that some fraudsters/impersonators are misusing the name and logo of True Balance, without any authorisation, on their App and/ or also by calling/ sending an SMS/WhatsApp message to the people from their personal mobile numbers, pretending to be True Balance's employee /authorized representative and harassing people for making loan repayments. It has been observed that such fraudsters/impersonators are claiming that loans are being granted by True Balance

True Balance hereby clarifies to the General Public that loans being granted through such rogue Apps are neither sanctioned by True Balance nor the NBFCs associated with True Balance. True Balance further clarifies such people/ entities/ Apps do not have any connection whatsoever, direct or indirect, or any arrangement or tie up with True Balance and strict legal action will be taken against such fraudsters/impersonators.

The General Public at large are advised to be cautious about any such misleading persons/ entities. True Balance is not liable to unwary customers or any members of the public at large for any act of loss or damage committed by unscrupulous persons/ entities that are illegally using the name or logo of True Balance.

General public is therefore requested that if any such fraudster/ impersonator approaches you by using our name, kindly immediately report to True Balance on email: reportfraud@balancehero.com along with a screenshot of the

message or other details available with you Further, kindly visit our website https://www.truebalance.io for detailed information about our products. True Balance is a digital platform and makes available digital loans through its RBI licenced NBFC arm named True Credits

Private Limited, or other authorised RBI licensed lending partners. General Public are requested to kindly visit our website link https://www.truebalance.io/fraud-alerts to know more on how to safeguard

yourself from such fraudsters/ impersonators and do not take any loan from such unauthorised platforms.

बँक ऑफ़ इंडिया BOI

सार्केत शाखा, वाईडब्लूए होस्टल बिल्डिंग, 21–एवैन्यू साकेत, नर्ड दिल्ली-110017

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) परिशिष्ट—N[नियम 8(1)] जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत बैंक ऑफ इंडिया, साकेत शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथ प्रतिभृति हित (प्रवर्तन), नियमावली २००२ के नियम ३ साथ पठित धारा १३ (२) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अद्योहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 05.04.2021 जारी कर ऋणधारक श्री मोहन लाल एवं श्रीमती राशी कंसल को उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों वे भीतर सूचना में वर्णित राशि रू. 16,46,707.75 (रुपये सोलह लाख छियालिस हजार सात सौ सात और पचहत्तर पैसे मात्र) उस पर 8.25% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज, मासिक अंतराल के साथ संयोजित और बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों, शूल्कों और खर्चों को वापस लौटाने

का निर्देश दिया था ऋणधारक,इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को यह सुचित किया जाता है आज दिनांक 2 मार्च, 2022 को अद्योहस्तारी ने उक्त नियमावली के नियम ८ के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए अद्योहस्तारी ने यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रू 16,13,204.75 (रूपये सोलह लाख तेरह हजार दो सौ चार और पचहत्तर पैसे मात्र) अग्रिम ब्याज के लिए बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा। अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधान के तहत, सुरक्षित संपत्तियों को भूनाने के लिए

उपलब्ध समय के संबंध में ऋणी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

(ए) संपत्ति का सभी भाग व हिस्सा जिसमें, मकान नंबर 289, तृतीय तल छत के अधिकारों के साथ, ब्लॉक-डी, सेक्टर -1, रोहिणी, दिल्ली -110085 शामिल हैं, जो सुश्री राशी कंसल पुत्री श्री मोहन लाल के स्वामित्व में हैं।

चौहददीः उत्तर में खुली स्थान, पर्व में संपत्ति संख्या 290.

स्थानः दिल्ली दिनांकः 02.03.2022 प्राधिकृत अधिकारीः बैंक ऑफ इंडिया

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document, All capitalised terms used and not defined herein shall have the same meaning assigned to them in the letter of offer dated February 18, 2022 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with BSE Ltd ("BSE" or "Stock Exchange") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

DATA INFRASTRUCTURE TRUST

(formerly, Tower Infrastructure Trust)

(Registered in the Republic of India as an irrevocable trust set up under the Indian Trusts Act, 1882, and registered as an infrastructure investment trust under the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 ("InvIT Regulations"), originally under the name "Tower Infrastructure Trust", on March 19, 2019 having registration number IN/InvIT/18-19/0009 at Mumbai. Subsequently, the name of the Trust was changed to "Data Infrastructure Trust" upon issue of fresh Certificate of Registration dated October 8, 2021 under the InvIT Regulations).

Principal Place of Business: Unit 1, 4th Floor, Godrej BKC, Plot No. C-68, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051, Maharashtra, India

Tel: +91 22 6600 0700; Compliance Officer: Inder Mehta E-mail: secretarial@summitdigitel.com; Website: www.towerinfratrust.com

FOR CIRCULATION TO THE ELIGIBLE UNITHOLDERS OF DATA INFRASTRUCTURE TRUST ONLY

TRUSTEE	SPON	SORS	INVESTMENT MANAGER	
AXIS TRUSTEE	BROOKFIELD SPONSOR	RELIANCE SPONSOR	INVESTMENT MANAGER	
Axis Trustee Services Limited	BIF IV Jarvis India Pte. Ltd.	Reliance Industrial Investments and Holdings Limited	Brookfield India Infrastructure Manager Private Limited (formerly, WIP (India) Private Limited)	

ISSUE OF UP TO 28,700,000 UNITS OF DATA INFRASTRUCTURE TRUST ("DIT" OR "TRUST" AND SUCH UNITS, THE "UNITS"), FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 110.46 PER UNIT (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING ₹ 3,170.20 MILLION* TO THE ELIGIBLE UNITHOLDERS (AS DEFINED HEREINAFTER) ON A RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF 1 UNIT FOR EVERY 88 UNITS HELD BY THEM ON THE RECORD DATE, BEING FEBRUARY 17, 2022 (THE "ISSUE") IN ACCORDANCE WITH THE INVIT REGULATIONS AND THE SEBI RIGHTS ISSUE GUIDELINES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE SECTION ENTITLED "THE ISSUE" ON PAGE 15 OF THE LETTER OF OFFER.

*The Issue has been approved by the Data InvIT Committee of the Board of Directors of the Investment Manager on December 28, 2021.

BASIS OF ALLOTMENT

The Rights Issue of Data Infrastructure Trust opened for subscription on Tuesday, February 22, 2022 and closed on Monday, February 28, 2022 and the last date for market renunciation on Wednesday, February 23, 2022. Out of a total 5 Application Form received, none of the Application Form were rejected on technical grounds. The total number of valid Application Form received were 5 for 28,800,000 Rights Units, which was 100.35% of the total Issue size. In accordance with the Letter of Offer, the Basis of Allotment was finalised on March 2, 2022, in consultation with the Lead Manager to the Issue, Registrar and BSE, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Data InvIT Committee of the Board of Directors of the Investment Manager took on record the Basis of Allotment and approved the allotment of 28,700,000 Rights Units at its meeting held on March 03, 2022. All valid CAFs (including ASBA applications) have been considered for allotment.

1 The breek up of Applications (including ACDA Applications) is given below

Category	No. of Valid Applications Received	No. of Units under valid Applications	No. of Rights Units accepted and Allotted against Rights Entitlement (A)	No. of Rights Units accepted and Allotted against Additional Rights Units applied for (B)	Total Rights Units accepted and Allotted (A+B)
Eligible Unitholders	5	28,800,000	28,359,090	340,910	28,700,000
Renouncees		-		.57/	
Total	5	28,800,000	28,359,090	340,910	28,700,000

28,800,000 28,359,090 340.910 Total 2. Information regarding total applications received (including ASBA applications received):

Category	Applica Recei		Rights I	Rights Units Applied for		Ri	d	
	Number	%	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%
Eligible Unitholders	5	100.00	28,800,000	3,181,248,000	100.35	28,700,000	3,170,202,000	100.00
Renouncees	- 20	828	12	20	20	20	2	
Total	5	100.00	28,800,000	3,181,248,000	100.35	28,700,000	3,170,202,000	100.00

Dispatch/Refund orders: The dispatch of allotment advice cum refund intimation to the Allottees, as applicable, have been completed on March 3, 2022. The unblocking instructions to Self Certified Syndicate Bank ("SCSBs") for unblocking of funds was given by March 2, 2022. The listing application was filed with BSE on March 3, 2022. The credit in respect of allotment of Units offered pursuant to the Issue in dematerialized form in National Securities Depository Limited & Central Depository Services (India) Limited, as applicable has been completed on March 03, 2022 to the respective demat accounts. The Units offered pursuant to the Issue would commence trading on BSE with effect from Monday, March 07, 2022, pursuant to their listing and trading approvals and shall be traded under the same ISIN INE0BWS23018, as the existing Units.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS UNITS CAN BE TRADED ON BSE LIMITED ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

THE UNITS AND RIGHTS ENTITLEMENTS HAVE NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACTOR ANY OTHER APPLICABLE STATE SECURITIES LAWS OF THE UNITED STATES AND, UNLESS SO REGISTERED, MAY NOT BE OFFERED OR SOLD WITHIN THE UNITED STATES EXCEPT PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN A TRANSACTION NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT AND APPLICABLE STATE SECURITIES LAWS. ACCORDINGLY, THE UNITS OR THE RIGHTS ENTITLEMENTS ARE BEING OFFERED AND SOLD ONLY OUTSIDE THE UNITED STATES IN OFFSHORE TRANSACTIONS IN RELIANCE ON REGULATIONS, IN EACH CASE IN COMPLIANCE WITH THE APPLICABLE LAWS OF THE JURISDICTIONS WHERE THOSE OFFERS AND SALES ARE MADE.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text "Disclaimer clause of BSE" beginning on page no. 165 of the Letter of Offer. All capitalized terms used but not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated February 18, 2022.

REGISTRAR TO THE ISSUE

AMBIT PRIVATE LIMITED

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

Marg Lower Parel Mumbai - 400 013 Maharashtra, India Telephone: +91 22 6623 3000 E-mail: datatrust.rights@ambit.co Investor Grievance E-mail:

customerservicemb@ambit.co Website: www.ambit.co Contact Person: Nikhil Bhiwapurkar/ Miraj Sampat

SEBI Registration No.: INM000010585

KFIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

Selenium, Tower B Plot No- 31 and 32, Ambit House 449, Senapati Bapat Financial District Nanakramguda, Serilingampally Rangareddi Hyderabad 500 032, Telangana, India Tel.: +91 40 6716 2222 Fax: +91 40 2343 1551 Toll free number: 1800 309 4001 E-mail: dit.invitrights@kfintech.com

> Investor Grievance E-mail: einward.ris@kfintech.com Website: www.kfintech.com Contact Person: M. Murali Krishna SEBI Registration No.: INR000000221

COMPLIANCE OFFICER

Unit 2, Tower 4, Equinox Business Park, LBS Marg, Kurla (W), Mumbai 400070, Maharashtra, India Tel: +91 022 69075252 E-mail: secretarial@summitdigitel.com

Mr. Inder Mehta

Bidders can contact the Compliance Officer in case of any pre-Issue or post-Issue related problems such as non-receipt of Allotment Advice/letter of Allotment, non-credit of Allotted Units in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode.

CIN: U72400TG2017PTC117649

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE UNITS OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE TRUST.

On behalf of Data Infrastructure Trust

Brookfield India Infrastructure Manager Private Limited

Inder Mehta Compliance Officer

The Letter of Offer is available on the website of the BSE at www.bseindia.com, Data Infrastructure Trust at www.towerinfratrust.com and on the website of the Lead Manager at www.ambit.co. Investors should note that investment in the Units involves a degree of risk, and for details relating to the same, should refer to the Letter of Offer, including the sections entitled "Risk Factors" and "Forward-Looking Statements" on pages 64 and 13 of the Letter of Offer.

www.readwhere.com

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः ४ मार्च, २०२२

मामला सं.: ओए/1141/2019

डीम्स पैकेजिंग सॉल्यशंस

(ii) मूल आवेदन की क्रम संख्या उए के अंतर्गत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट संपत्तियों तथा परिसंपत्तियों के अलावा संपत्तियों

(iv) आप न्यायाधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रदर्शित

किसी परिसंपत्ति या किसी अन्य संपत्तियों, जिस पर प्रतिभृति ब्याज सुजित किया है, पर अपने व्यापार के सामान्य कोसं प्रक्रिया में वसूली और ऐसी परिसंपत्तियों के ऊपर प्रतिवृति व्यान को धारण करने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के

साथ रखे गए खाते में ऐसी विक्री प्रक्रिया की राशि को जमा करने के उत्तरदायी होंगे। आपको अनुपरिचति में कर दी जाएगी।

> समन जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रपत्र-जी

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन प्रासंगिक विवरण		
2.	कार्पीरेट देनदार के निगमन की तिथि	08 सितंबर 1989
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी)—कानपुर
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U19116UP1989PTC011154
-	W1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

स्वामी दीन गुप्ता 2 / 64, विशेष खंड गोमती नगर, लखनऊ-226010

पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है 23. प्रपत्र "जी" के प्रकाशन की तिथि 05 मार्च 2022

कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L65910DL1990PLC040705 पंजीकृत कार्यालय: 4 एमएमटीसी/एसटीसी मार्केट, गीतांजलि, नई दिल्ली-110017 कॉर्पोरेट कार्यालय: 315, तीसरी मंजिल, स्कायर वन मॉल, साकेत,

डाकीय मतपत्र की सूचना एतदद्वारा सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, सं. 17 / 2020 दिनांकित 13

होता है तो इसे पारित करें:

मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एमएसईआई") से कंपनी के समता अंशों का

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान सहित डाकीय मतपत्र के माध्यम से मतदान शनिवार 05 मार्च 2022

हस्ताक्षरित डाकीय मतपत्र जांचकर्ता के पास कार्यकारी समयावधि के समापन अर्थात् रविवार 03 अप्रैल 2022 को सायं 5.00 बजे (भामास) तक अथवा इससे पूर्व पहुंच जाने चाहिए।

प्रविधि से संबंधित जानकारी डाकीय मतपत्र सूचना में उपलब्ध कराई गई है।

जेनेसिस फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हस्ता./-ऋचा भारद्वाज (कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी) सदस्यता सं.: ए32549

बोर्ड के आदेश द्वारा

तिथि: 28.02.2022 प्राधिकृत अधिकारी स्थानः सोहना, गुडुगाँव

युको बैंक

Place: Mumbai

Date : March 04, 2022

दक्षिण में संपत्ति संख्या 215

पश्चिम में संपत्ति संख्या 288